

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 15.09.2022

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बडी कामयाबी

अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे लगभग 50 लाख रूपये कीमत की 500 ग्राम (फाइन क्वालिटी) की अफीम सहित मादक पदार्थ तस्क़र गिरफ्तार !

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी, अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एवं श्री बी0एस0 वीर कुमार क्षेत्राधिकारी तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन मे थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

आज दिनांक 15.09.2022 को थानाध्यक्ष श्री राजेश बाबू मिश्रा के नेतृत्व मे थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा सदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन चैकिंग रात्रि गस्त के दौरान बनखण्डी पुलिया तिराहे से फरीदपुर जाने वाले मार्ग पर करीब 100 कदम की दूरी पर समय करीब 01.30 बजे अभियुक्त पवन पुत्र सूरजपाल कश्यप निवासी ग्राम महमूरगंज थाना कादर चौक जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पवन उपरोक्त के कब्जे से 500 ग्राम अफीम फाईन क्वालिटी बरामद की गयी । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. पवन पुत्र सूरजपाल कश्यप निवासी ग्राम महमूरगंज थाना कादर चौक जनपद बदायूं ।

बरामदगी का विवरण

1-500 ग्राम अफीम (फाईन क्वालिटी) (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये ।)

पूछताछ विवरण

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त पूछताछ मे बताया कि मैं पंजाब से ट्रेन के माध्यम से सस्ते दामो मे अफीम लाता हूँ तथा जनपद बदायूं , बरेली, शाहजहाँपुर के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रो मे घूम फिर कर अच्छे दामो मे लोगो को विक्रय कर देता हूँ आज भी मैं अफीम की बिक्री करने के लिये जा रहा था परन्तु बनखण्डी पुलिया पर फरीदपुर कि तरफ आते हुए आपने मुझे पकड लिया है । अभियुक्त से मिली जानकारी के आधार पर अफीम के स्रोतो के बारे मे टीम गठित कर जानकारी की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0स0 - 501/2022 धारा 8/18 NDPS ACT थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 136/2022 धारा 8/15 NDPS ACT थाना सी0बी0 गंज जनपद बरेली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री बी0एस0 वीर कुमार क्षेत्राधिकारी तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. थानाध्यक्ष राजेश बाबू मिश्रा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री राम सुन्दर यादव थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2157 विशाल अष्टवाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1804 अनुज प्रताप थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2314 निशान्त चौधरी थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2305 प्रशान्त महालवार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर